



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1484]  
No. 1484]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2007/अग्रहायण 9, 1929  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2007/AGRAHAYANA 9, 1929

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2007  
(आयकर)

का.आ. 2021(अ).—आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 117 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को कालम (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है जिसका मुख्यालय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर पृथक् रूप से उक्त अधिनियम की धारा 120 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए जाने वाले क्षेत्राधिकार के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा।

## अनुसूची

क्रम सं.	अधिकारी	आयकर प्राधिकारी जिसकी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य आयुक्त (बड़ी कारदाता इकाई) चेन्नई	मुख्य आयकर आयुक्त	चेन्नई

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगी।

[अधिसूचना सं. 283/07 फा. सं. 187/17/2007-आ.क.नि.-1]

डॉ. जगदीप गोयल, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)  
NOTIFICATION  
New Delhi, the 30th November, 2007  
(INCOME TAX)

S.O. 2021(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 117 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby appoints the officer specified in Column (2) of the Schedule below to be the Income tax authority as specified in Column (3) having his headquarters at the place specified in Column (4) of the said

Schedule for such jurisdiction as may be specified under Section 120 of the said Act separately from time to time by the Central Board of Direct Taxes.

### SCHEDULE

S. No.	Officer	Income-Tax authority whose powers are to be exercised	Headquarters
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Chief Commissioner (Large Taxpayer Unit) Chennai	Chief Commissioner of Income-tax	Chennai

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 283/07 F. No. 187/17/2007/ITA-I]

DR. JAGDEEP GOEL, Director

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2007

### ( आयकर )

का.आ. 2022(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष का बोर्ड एतद्द्वारा :—

(क) निदेश देता है कि उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट स्थान पर मुख्यालय वाला, इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट आयकर आयुक्त उक्त अधिनियम के अध्याय XII-ख और XVII-खख के अंतर्गत अधिकारों सहित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत स्वयं को सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करेगा और सभी आयों अथवा उसकी आय की श्रेणियों के संबंध में उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में कार्य संपन्न करेगा;

(ख) इस अधिसूचना में उल्लिखित आयकर आयुक्त को उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट ऐसी आय अथवा आय की श्रेणियों अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों जो उसके अधीनस्थ हैं, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय XVII-ख और XVII-खख के अंतर्गत अधिकारों सहित अधिकारों के प्रयोग एवं कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करता है।

(ग) इस अधिसूचना के खंड (ख) में उल्लिखित अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों को भी उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों अथवा आय अथवा आय की श्रेणियों अथवा मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में, जिनके संबंध में इस अधिसूचना के खंड (ख) के अंतर्गत आयकर आयुक्त द्वारा ऐसे अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों को अधिकृत किया जाता है, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा, जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा अध्याय XVII-ख और XVII-खख के अंतर्गत अधिकार सहित अधिकारों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करने के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करता है।

### अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयकर आयुक्त (बड़ी कर दाता इकाई), चेन्नई	चेन्नई	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले और जो इस समय मुख्य आयकर आयुक्त चेन्नई-I और चेन्नई-II के क्षेत्राधिकार में हैं जिसमें बड़ी करदाता इकाई के लिए विकल्प चुनने हेतु सहमति पत्र दिया गया है और जिसमें वित्त वर्ष 2004-2005 में या किसी परवर्ती वित्त वर्ष में निम्नलिखित भुगतान किए गए हैं :

(4)

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत नकद में या चालू खाता में पाँच करोड़ रुपए या इससे अधिक का उत्पाद शुल्क; अथवा

(ख) सेवा कर नियमावली, 1994 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत नकद में या चालू खाता-में पाँच करोड़ रुपए या इससे अधिक का सेवा कर; अथवा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक का अग्रिम कर।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 284/07 फा. सं. 187/17/2007-आ.क.नि.-1]

डॉ. जगदीप गोयल, निदेशक

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2007

### (INCOME TAX)

**S.O. 2022(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby:—

- (a) directs that the Commissioner of Income-tax specified in column (2) of the Schedule here to annexed, having his headquarter at the place specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, shall exercise the powers conferred upon him under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including the powers under Chapter XVII-B and XVII-BB of the said Act, and perform the functions in respect of such cases or classes of cases or such persons or classes of persons specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule and in respect of all incomes or classes of incomes thereof;
- (b) authorizes the Commissioner of Income-tax referred to in this notification to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions, including powers under Chapter XVII-B and XVII-BB of the said Act, by the Additional Commissioners or Joint Commissioners of Income-tax, who are subordinate to him, in respect of such persons or classes of persons or of such income or classes of income or of such cases or classes of cases specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule;
- (c) further authorizes the Additional Commissioners or Joint Commissioners of Income-tax, referred to in clause (b) of this notification, to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions, including powers under Chapter XVII-B and XVII-BB of the said Act, by the Assessing Officers, who are subordinate to them, in respect of such persons or classes of persons or income or classes of income, or cases or classes of cases specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule, in respect of which such Additional Commissioners or Joint Commissioners of Income-tax are authorized by the Commissioner of Income-tax under clause (b) of this notification.

### SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Income-tax authority	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Commissioner of Income-tax (Large Taxpayer Unit) Chennai	Chennai	All cases assigned under section 127 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and which are presently under the jurisdiction of Chief Commissioners of Income-tax Chennai-I and II in which Consent Form for opting for the large Taxpayer

(4)

Unit scheme has been given and in which following payments have been made in financial year 2004-05 or any subsequent financial year :

(a) Duties of excise in cash or current account of rupees five crores or more under the Central Excise Act, 1944; or

(b) Service tax in cash or current account of rupees five crores or more under the Finance Act, 1994 read with Service Tax Rules, 1994; or

(c) Advance tax of rupees Ten crores or more under the Income-tax Act, 1961.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No.284/07 F.No.187/17/2007/ITA-I]

DR. JAGDEEP GOEL, Director

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2007

( आयकर )

का.आ. 2023 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मुख्य आयुक्त जिसका मुख्यालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट संगत प्रविष्टियों में निर्दिष्ट स्थान पर है, वह ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए अथवा ऐसी आयों अथवा आय की श्रेणियों अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निष्पादन करेगा जिनके संबंध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

### अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य आयुक्त (बड़ी करदाता इकाई), चेन्नई	चेन्नई	आयकर आयुक्त (बड़ी करदाता इकाई), चेन्नई

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगी।

[अधिसूचना सं. 285/07 फा. सं. 187/17/2007-आ.क.नि.-1]

डॉ. जगदीप गोयल, निदेशक

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2007

### (INCOME TAX)

S.O. 2023(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Commissioner specified in column (2) of the Schedule below, having his headquarters at the place specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, shall exercise the powers and perform the functions in respect of such territorial areas or of such persons or classes of persons or of such incomes or classes of income or of such cases or classes of cases in respect of which the Commissioner of Income-tax specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule has jurisdiction vested in him.

## SCHEDULE

S. No.	Designation of Income-tax authority	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Commissioner (Large Taxpayer Unit) Chennai	Chennai	Commissioner of Income tax (Large Taxpayer Unit) Chennai

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 285/07 F.No.187/17/2007/ITA-I]

DR. JAGDEEP GOEL, Director

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2007

( आयकर )

का.आ. 2024(अ).—आयकर अधिनियम, 1961(1961का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निर्देश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों के अधीनस्थ होंगे।

## अनुसूची

क्रम सं.	आयकर अधिकारी का पदनाम	आयकर प्राधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य आयुक्त (बड़ी करदाता इकाई), चेन्नई	1. आयकर आयुक्त (बड़ी करदाता इकाई) चेन्नई 2. आयकर आयुक्त (अपील) बड़ी करदाता इकाई, चेन्नई

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगी।

[अधिसूचना सं. 286/07 फा. सं. 187/17/2007-आ.क.नि.-1]

डॉ. जगदीप गोयल, निदेशक

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2007

(INCOME TAX)

S.O. 2024(E).—In exercise of the powers conferred by Section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Income-tax authorities specified in Column(3) of the Schedule below shall be subordinate to the income tax authority specified in column (2) of the said Schedule.

## SCHEDULE

S. No.	Designation of Income-tax authority	Designation of Income-tax authority
(1)	(2)	(3)
1.	Chief Commissioner (Large Taxpayer Unit) Chennai	1. Commissioner of Income tax (Large Taxpayer Unit) Chennai. 2. Commissioner of Income tax (Appeals) Large Taxpayer Unit, Chennai.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 286/07 F.No.187/17/2007/ITA-I]

DR. JAGDEEP GOEL, Director

4843 44/202